



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1—दिसम्बर 7, 2012 (अग्रहायण 10, 1934)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1—DECEMBER 7, 2012 (AGRAHAYANA 10, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *	
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	955	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1199	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1839
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1765	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 12891
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 999
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	955	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1199	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1765	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1839
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	12891
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	999
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2012

संकल्प

सं. फा. 4(4)/2011-हिन्दी--मंत्रियों तथा उनके विभागों में परिवर्तन के फलस्वरूप इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी समसंख्यक संकल्प दिनांक 23 जुलाई, 2012 के आंशिक आशोधन में, सरकारी सदस्य शीर्ष में निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है :--

- | | |
|---|-----------|
| 1. शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | सदस्य |

आदेश

इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।

इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

आर. सी. ख्वाजा
संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2012

सं. 11024/02/2010-पीएमए--पुलिस (आन्तरिक सुरक्षा सेवा) पदक के संबंध में दिनांक 20.09.2000 की राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना

सं. 142-प्रेज/2000 और दिनांक 27.10.2003 की अधिसूचना संख्या 11022/23/2003-पीएमए, गृह मंत्रालय की दिनांक 27/28.11.2000 तथा 31.01.2001 की अधिसूचना संख्या 11026/9/98-पीएमए के अनुसरण में, भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :--

- जिला कांवर्धा (छत्तीसगढ़), दिन्दोरी (मध्य प्रदेश) और भण्डारा (महाराष्ट्र) को पुलिस (आन्तरिक सुरक्षा सेवा) पदक प्रदान करने संबंधी दायरे से बाहर रखा गया है।
- आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, के निम्नलिखित जिले भी राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 20 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 142-प्रेज/2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन "पुलिस (आन्तरिक सुरक्षा सेवा) पदक" के पुरस्कार के लिए पात्र होंगे :--

क्रम सं.	राज्य	जिलों की संख्या	उग्रवाद द्वारा प्रभावित जिले
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	महबूब नगर, गुन्टूर, प्रकाशम, अनन्तपुर, कुरनूल, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम और निजामाबाद
2.	बिहार	15	कैमूर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, अरवल, मुंगेर, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया
3.	झारखंड	18	हजारीबाग, लोहरदग्गा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहर, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसवान, खूंटी, रामगढ़, दुमका, देवघर और पाकुर

1	2	3	4
4.	छत्तीसगढ़	12	बीजापुर, सरगुजा, जशपुर, कोरिया (बैकुण्ठपुर), नारायनपुर, धामतरी, महासमन्द, गरियाबन्द, बलोद, सुकमा, कोण्डागोन और बलरामपुर
5.	महाराष्ट्र	1	गोन्दिया
6.	उड़ीसा	14	नवरंगपुर, मयूरभंज, सुन्दरगढ़ सम्बलपुर, क्योंझर, जाजपुर, देवगढ़ कोन्धामल, धेनकनाल, नयागढ़, कालाहाण्डी, नौपाड़ा, बरगढ़ और बोलनगीर
7.	उत्तर प्रदेश	3	सोनभद्र, मिर्जापुर और चन्दौली
8.	पश्चिम बंगाल	4	बांकुरा, मिदनापुर, पुरूलिया और बीरभूमि

2. ये ओदश जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

के. के. मित्तल
संयुक्त सचिव

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 2012

सं. 1/3/2010-पीडी--सीएसआईआर की शासी निकाय को 17 दिसम्बर, 2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित करने संबंधी इस कार्यालय की दिनांक 22.02.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सामान्य सूचनार्थ यह भी अधिसूचित किया जाता है कि प्रो. इन्द्रनील मान्ना, पूर्व निदेशक सीएसआईआर-सीजीसीआरआई, कोलकाता के अपने मूल विभाग अर्थात् आईआईटी, खड़गपुर वापस लौट जाने के परिणामस्वरूप वे सीएसआईआर की शासी निकाय के सदस्य नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष, सीएसआईआर (भारत के प्रधानमंत्री) ने सीएसआईआर की शासी निकाय के सदस्य के रूप में प्रो. इन्द्रनील मान्ना के स्थान पर डॉ. एस. श्रीकान्त, निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर को वर्तमान शासी निकाय की शेष अवधि अर्थात् 16.12.2013 तक नामित किया है।

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 9th November 2012

RESOLUTION

No. 4(4)/2012-Hindi—Consequent upon the change of Ministers and their portfolios, in partial modification of notification of even number dated 23rd July, 2012 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry, Official Members would be as under :—

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Minister of Urban Development and Parliamentary Affairs | Chairman |
| 2. Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Planning | Deputy Chairman |
| 3. Minister of State (Independent Charge) in the Ministry of Development of North Eastern Region and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs | Member |

ORDER

A copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territory Administrations. All Ministries and Departments of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office, Cabinet Affairs, New Delhi.

This Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

R. C. KHWAJA
Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th November 2012

No. 11024/02/2010-PMA—In continuation of President's Secretariat Notification No. 142-Pres/2000 dated 20.09.2000 and Notification No. 11022/23/2003-PMA dated 27.10.2003, Ministry of Home Affairs Notification No. 11026/9/98-PMA dated 27/28.11.2000 & 31.01.2001 related to award of the Police (Antarik Suraksha Seva) Padak, Government of India has decided the following :—

- (i) District Kaverdha (Chattisgarh), Dindori (Madhya Pradesh) and Bhandara (Maharashtra) have been excluded from the purview of awarding Police (Antarik Suraksha Seva) Padak.
- (ii) The following Districts of Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chattisgarh, Maharashtra, Orissa, Uttar

Pradesh and West Bengal will also qualify for the award of "Police (Antarik Suraksha Seva) Padak" subject to the conditions stipulated in the President Secretariat Notification No. 142-Pers/2000 dated 20th September, 2000 :—

Sl. No.	State	No. of Districts affected by extremism Distt.	
1.	Andhra Pradesh	10	Mehboobnagar, Guntur, Prakasam, Anantapur, Kurnool, Vizianagaram, Visakhapatnam, East Godavari, Srikakulam and Nizamabad.
2.	Bihar	15	Kaimur, East Champaran, West Champaran, Sitamarhi, Arwal, Munger, Nawada, Jamui, Muzaffarpur, Sheohar, Vaishali, Banka, Lakhisarai, Begusari and Khagaria.
3.	Jharkhand	18	Hazaribagh, Lohardagga, Ranchi, Gumla, Simdega, Latehar, Giridih, Koderma, Bokaro, Dhanbad, East Singhbhum, West Singhbhum, Saraikela Kharaswan, Khunti, Ramgarh, Dumka, Deoghar and Pakur.
4.	Chhattisgarh	12	Bijapur, Sarguja, Jashpur, Korea (Baikunthpur), Narayanpur, Dhamtari, Mahasamund, Gariyaband, Balod, Sukma, Kondagone and Balrampur.
5.	Maharashtra	1	Gondia
6.	Orissa	14	Navrangpur, Mayurbhanj, Sundargarh, Sambalpur, Keonjhar, Jajpur, Deogarh, Kondhamal, Dhenkanal, Nayagarh, Kalahandi, Nuapada, Bargarh and Bolangir
7.	U.P.	3	Sonebhadra, Mirzapur and Chandauli
8.	West Bengal	4	Bankura, Midnapore, Purulia and Birbhum.

2. These orders will take effect from the date of issue.

K. K. MITTAL
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH
(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 12th November 2012

No. 1/3/2010-PD—In continuation to this Office Notification of even number dated 22.02.2011 reconstituting the Governing Body of CSIR for a period of three years with effect from 17th December, 2010, it is further notified for general information that consequent upon the repatriation of

Prof. Indranil Manna, Former Director, CSIR-CGCRI, Kolkata to his parent department i.e. IIT, Kharagpur, he ceases to be the member of Governing Body of CSIR. The Hon'ble President, CSIR (Prime Minister of India) is pleased to nominate Dr. S. Srikanth, Director, CSIR-National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur in place of Prof. Indranil Manna as a member of the Governing Body of CSIR for the remaining tenure of the present Governing Body i.e. upto 16.12.2013.

K. JAYAKUMAR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012